

प्रेस नोट दिनांक- 15-01-2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक रैपुरा के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उनकी टीम द्वारा सुशील कुमार कहार पुत्र शिवप्रसाद निवासी नयाचन्द्रा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 21 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना रैपुरा
2. उ०नि० गुलाबचन्द्र मौर्या
3. आरक्षी मंगल पाल

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(क). उ०नि० श्री अवधेश कुमार शुक्ला थाना मऊ तथा उनके हमराही द्वारा मु०अ०सं० 132/2020 धारा 279/304ए/411/419/420 भादवि के वांछित अभियुक्त नसीम खां पुत्र महील खां निवासी खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री अवधेश कुमार शुक्ला थाना मऊ
2. आरक्षी विवेक कुमार यादव

(ख). उ०नि० श्रीमती रीता मौर्या थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा मु०अ०सं० 558/2020 धारा 409 भादवि० के वांछित अभियुक्त राजकुमार पुत्र स्व० दख्खीलाल निवासी 53जी/2 जार्ज टाउन लौदर रोड प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्रीमती रीता मौर्या थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी अखिलेश यादव

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपहृतों/गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक मऊ के मार्गदर्शन में वरि०उ०नि० श्री गोपालचन्द्र कनौजिया तथा उनके हमराही द्वारा मु०अ०सं० 08/2021 धारा 363/366 भादवि० से सम्बन्धित पीडिता को सूचना के 24 घण्टे के अन्दर बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि थाना क्षेत्र मऊ के निवासी एक व्यक्ति द्वारा दिनांक 14.01.2021 को थाना मऊ में सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री को राममिलन पुत्र गुल्लू यादव निवासी चरदहा थाना रैपुरा बहलाफुसला कर भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु०अ०सं० 08/2021 धारा 363/366 भादवि० बनाम राममिलन उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा बालिका की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरि०उ०नि० श्री गोपाल चन्द्र कनौजिया को निर्देशित किया गया। वरि०उ०नि० द्वारा अथक प्रयास कर सूचना के 24 घण्टे के अन्दर पीडिता को बरामद करने में सफलता प्राप्त की।

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. वरि०उ०नि० श्री गोपाल चन्द्र कनौजिया थाना मऊ
2. महिला आरक्षी रेखा

(4). जनपद चित्रकूट पीआरवी 2047 थाना भरतकूप को दिनांक 14/01/2021 को समय 17:51 बजे इवेंट संख्या 6938 द्वारा घटनास्थल रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप से कॉलर प्रशांत शुक्ला (मोबाइल नंबर 8765433136)

द्वारा सूचना दी गयी कि रोडवेज बस का एक्सीडेंट हो गया है 5 लोग गंभीर घायल है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों ने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 5 लोग घायल है जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। पीआरवी कर्मियों ने घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप को भी बताया गया। घटनास्थल पर प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स के आ गये है। पीआरवी कर्मी तत्काल गंभीर रूप से घायल 2 लोगो को पीआरवी वाहन द्वारा जिला अस्पताल सोनेपुर में भर्ती कराया और शेष घायलो को एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर – मुख्य आरक्षी रहमत उल्ला

पायलट - होमगार्ड अशोक मौर्य

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अवधेश कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा जिलाबदर अभियुक्त बबलू केवट पुत्र रामाधान निवासी कटैया खादर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार शुक्ला थाना मऊ
2. आरक्षी हृदेश कुमार

(6). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 15.01.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम भेड़ा मार्कण्डेय आश्रम में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ परानु बाबा मंदिर के पास भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा बाजपेयी तिराहा, बस स्टैण्ड, तुलसी इण्टर कॉलेज में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ बस स्टैण्ड, इलाहाबाद बैंक में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, भैरोपागा, चकरेही चौराहा एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया ।

एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।